

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 416]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 10 अक्टूबर 2016—आश्विन 18, शक 1938

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2016

क्र. सी.-3-10-2013-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम, 2013 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

#### संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 7 में सारणी में, अनुक्रमांक 6 तथा उनके संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनु. क्र. (1)	सेवा समूह (2)	नवीन उप समूह (3)	पद/पदनाम का संशोधित संवर्ग (4)	श्रेणी (5)
“6.	समूह-6 [हाई स्कूल (10+2) स्तर]	उप समूह—01	कर्मशाला निदेशक/कुशल सहायक/तकनीकी सहायक/ डिमॉन्स्ट्रेटर मेन्टीनेन्स तकनीशियन/जूनियर इन्सट्रक्टर तथा अन्य समतुल्य संवर्ग एवं पद.	तृतीय
		उप समूह—02	प्रयोगशाला परिचारक एवं अन्य समतुल्य पद	चतुर्थ.”

2. नियम 9 में, उप नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“3. संयुक्त अर्हता परीक्षा के लिए योजना नीचे सारणी में दिये अनुसार होगी, अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	समूह	प्रश्न पत्र की कुल संख्या	कुल अंक	प्रश्न-पत्रों के ब्यौरे	अंक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	समूह—एक (स्नातकोत्तर स्तर) उपसमूह—3	01	200	(क) सामान्य विज्ञान सामान्य हिन्दी सामान्य अंग्रेजी सामान्य गणित  (ख) सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि सामान्य कम्प्यूटर ज्ञान सामान्य तार्किक योग्यता सामान्य प्रबंधन	100
2.	समूह—दो (स्नातक स्तर) उपसमूह—4	02	200	(क) सामान्य विज्ञान सामान्य हिन्दी सामान्य अंग्रेजी सामान्य गणित  (ख) सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि सामान्य कम्प्यूटर ज्ञान सामान्य तार्किक योग्यता सामान्य प्रबंधन	100
3.	समूह—छः हाई स्कूल (10+2) स्तर उपसमूह—01	01	100	सामान्य ज्ञान सामान्य हिन्दी सामान्य अंग्रेजी सामान्य गणित सामान्य विज्ञान तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न	100
4.	समूह—छः हाई स्कूल (10+2) स्तर उप समूह—02	01	100	सामान्य ज्ञान सामान्य हिन्दी सामान्य अंग्रेजी सामान्य गणित सामान्य विज्ञान तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न	100

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी. बी. पड़वार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2016

क्र. सी.-3-10-2013-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्र. सी.-3-10-2013-एक-3, भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी. बी. पड़वार, उपसचिव.

Bhopal, the 10th October 2016

No. C-3-10-2013-3-I.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Junior Service (Joint Qualifying) Examination Rules, 2013, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

(1) In rule 7, in the Table, for serial number 6 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

No. (1)	Service Group (2)	New Sub Group (3)	Amended Cadre of the Post/Designation (4)	Class (5)
“6	Group—6 [High School (10+2) Level]	Sub Group-01	Karmshala Nideshak/Skilled Assistant/ Technical Assistant/Demonstrator/Maintenance Technical/Junior Instructor and other Equivalent cadre and posts	III
		Sub Group-02	Laboratory Attendant and other equivalent posts.	IV.”.

(2) In rule 9, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

“(3) The plan for Joint qualifying examination shall be as given in the table below, namely :—

TABLE

No. (1)	Group (2)	Total No. of question paper (3)	Total Mark (4)	Details of question papers (5)	Marks (6)
1	Group—I Sub Group—3 (Post Graduate Level)	01	200	(a) General Science General Hindi General English General Mathematics  (b) General Knowledge and aptitude General Computer Knowledge General Reasoning ability General Management	100       100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Group—II Sub Group—4 (Graduate Level)	02	200	(a) General Science General Hindi General English General Mathematics	100
				(b) General Knowledge and aptitude General Computer Knowledge General Reasoning ability General Management	100
3	Group—VI High School (10+2) Sub- group—01	01	100	General Knowledge General Hindi General English General Mathematics General Science Questions based on technical Trade	100
4	Group—VI High School (10+2) Sub- group—02	01	100	General Knowledge General Hindi General English General Mathematics General Science Questions based on technical Trade	100.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
C. B. PADWAR, Dy. Secy.